

## प्रेस विज्ञप्ति

राष्ट्रीय रक्तदान दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर एवं रक्तदाता सम्मान समारोह का आयोजन गुरु श्री गोरखनाथ ब्लड बैंक मे किया गया।

01 अक्टूबर प्रति वर्ष पुरे देश मे "राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस " के रूप मे मनाया जाता है, इस वर्ष राष्ट्रीय रक्तदान दिवस की थीम "Give Blood and keep the world Beating "है एवं नारा "रक्तदान करके देखो अच्छा लगता है " है।इस पावन अवसर पर गुरु श्री गोरखनाथ ब्लड बैंक सभी रक्त दाताओ को हृदय से धन्यवाद देता है कि किसी भी आपातकाल या प्राकृतिक आपदाओ से निपटने हेतु अथवा उन रोगियों को जिन्हे रक्तधान कि बार -बार अवश्यकता पडती है ऐसे रोगियों को इन स्वरक्तदाताओं के बल पर ही ब्लड बैंक इनकी मदद कर पाता है। ये बाते ब्लड बैंक प्रभारी डॉ अवधेश अग्रवाल ने बताया।

ब्लड बैंक अधिकारी डॉ ममता जायसवाल ने सभी रक्तदाताओं के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त किया तथा बताया कि ऐसे कार्यक्रम जनमानस में रक्तदान के प्रति जागरूकता एवं समाज मे व्याप्त भ्रांतियों को दूर करने के लिए आयोजित किये जाते हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने मे ब्लड बैंक के तकनीशियन अमित मिश्रा, राजीव तिवारी, गिरीश पाठक, चंद्रेश्वर यादव, शोभा राय कि अहम भूमिका रही। इस कार्यक्रम मे चिकित्सालय के निदेशक मेजर जनरल डॉ अतुल वाजपेयी,उपर निदेशक डॉ कामेश्वर सिंह, डॉ राकेश तिवारी, डॉ दिवाकर मिश्रा,देवेश पाण्डेय, अनूप पाठक,युगुल किशोर निगम इत्यादि उपस्थित रहे।

निरंतर प्रत्येक तीन माह के अंतराल पर रक्त दान करने वाले गुरु द्वारा जटा शंकर के श्री जस पाल सिंह जी ने कहा रक्तदान करना और करवाना ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ पूजा है। सभी रक्तदाताओं को ब्लड बैंक द्वारा सम्मान स्वरुप प्रशस्ति पत्र एवं प्रतिकात्मक भेट उपहार स्वरुप दिया गया, बिशेष रूप से श्री जशपाल सिंह, जगनैन सिंह (नीटू ) अमर सिंहअरविन्द गुप्ता, सनी गुप्ता, इत्यादि। इस रक्तदान शिविर मे श्री सतेंद्र जायसवाल, जय किरण, समीर, पंकज सिंह, शिव कुमार के साथ 30 लोगो ने रक्तदान किया।